



एक भारत श्रेष्ठ भारत

Aaj Ka Vakya

Let's learn one sentence every day in 22 different Indian Languages

32. I always keep my surroundings clean.

ASSAMESE	মই সদায় মোৰ চৌপাশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখোঁ	Moi sodai mur soupas poriskar kori rakhu.
BENGALI	আমি সবসময় আমাৰ আশেপাশেৰ জায়গা পৰিষ্কাৰ ৰাখি।	Aami sobsomoy aamar aashepasher jay- ga poriskar rakhi.
BODO	আং জেব্লায়বো আংনি সোরগিদিং সিখোন- সাখোন লাখियो।	Ang jayblai bw angni swrgiding sikwn- sakwn lakiyw.
DOGRI	में अपने आले-दुआले म्हेशां साफ़-सफाई रखनां।	Men apane aale-duaale mheshaan saaph-safaa_ii rakhanaan.
GUJARATI	હું હંમેશાં મારો આસપાસનો વિસ્તાર સાફ રાખું છું.	Hun humesha mara aspas no vistar saaf raku chhu.
HINDI	में अपने आस-पास हमेशा सफाई रखता हूँ.	Main apne aas paas hamesha safai rakhta hoon.
KANNADA	ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.	Naanu yavagalu nanna suttamuttalina pradeshagalannu swachavagittukollut- tene.
KASHMIRI	بہ چھس پرتھ وِز پَن اَوْنْد پوک صاف تھاون۔	Be chus prath wazi panun aund pok saf thawan.
KONKANI	हांव सदांच म्हजें सरभोंवतण नितळ दवरतां.	Haanv sadaamch mhajem sarbhovtann nitall davartaam.
MAITHILI	हम सदिखन अपन लगपास के स्वच्छ रखैत छी।	Ham sadikhan apan lagpas ke swachh rakhait chi.
MALAYALAM	ഞാൻ എല്ലാപ്പോഴും എന്റെ പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നു.	Njaan eppozhum ente parisaram vrithiyaayi ooskshikkunnu.
MANIPURI	ঐ মতম চুপ্পদা ঐগী অকোয়বশিং লু- নান্না থাম্মি	Ei matam chuppa eigi akoibasing lu- nanna thammi.

MARATHI	मी नेहमीच माझ्या आसपासचा परिसर स्वच्छ ठेवतो.	Mee nehmich maajhyaa aaspaascha parisar swachchh thevto.
NEPALI	म आफ्नो वरिपरी सधैं साफ-सफाई राख्ने गर्छु।	Ma afno waripari sadhai saaf-safai rakhne garchu.
ODIA	ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଚାରିପାଖକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିଥାଏ	Mun sabubele mo charipakhaku pariskara rakhithae.
PUNJABI	ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ।	Mai hamesha apne aale-duaale nu saaf rakhda han.
SANSKRIT	अहं सर्वदैव स्वपाश्वस्थं वातावरणं स्वच्छं सन्धारयामि।	Aham sardevam swaparshrvsth vatavranam swacham sandharyami.
SANTALI	इंअ आडि पासेत् साफा सपी दोहो काम्।	Inak' ade pase safa safi doho kaam.
SINDHI	مان هميشه پنهنجي اردگرد صفائي رکندو آهيان.	Maan hameshaa pahinje ird gird safai akhando aahiyān.
TAMIL	எனது சுற்றுப்புறத்தை நான் எப்போதும் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்கிறேன் .	Enadhu sutruppuraththai naan eppodhum thooimaiyaaga vaithu kolgiren.
TELUGU	నేను ఎప్పుడూ నా పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుతాను.	Nēnu eppuḍū nā parisarālu pariśubhraṅgā uñcutānu.
URDU	میں اپنے ارد گرد ہمیشہ صفائی رکھتا ہوں۔	Main apne ird gird hamesha safai rakhta hoon.